

कीवा ऐन्शिअन्ट मिनरल ड्रॉप्स (KAMD)

कीवा ऐन्शिअन्ट मिनरल ड्रॉप्स (KAMD) एक उत्कृष्ट उत्पाद है जो प्राकृतिक मैग्नीशियम क्लोराइड से युक्त है अथवा दुनिया में मैग्नीशियम क्लोराइड के एकमात्र प्राकृतिक भंडार से जो कि 25 करोड़ वर्षों से भी अधिक समय से यूरोप की समुद्रीय तलहटी में संरक्षित है, से प्राप्त किया गया है। भूमि के गहरे तल से प्राप्त ये मैग्नीशियम प्राचीन है व पूरे विश्व में मैग्नीशियम क्लोराइड का एकमात्र सम्पूर्ण शुद्ध व प्राकृतिक संग्रह है। आप KAMD में 84 आयनिक ट्रेस मिनरल तक पा सकते हैं जो मानव शरीर के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। इसे उच्चतम गुणवत्ता उपलब्ध है और यह अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के माध्यम से लगातार नियंत्रित है।

यूरोप के प्राचीन समुद्रतल से प्राप्त मैग्नीशियम क्लोराइड से सम्बन्धित, "ट्रान्सडरमल थैरेपी" के लेखक डॉक्टर मार्क सिरकस, ओ.एम.डी कहते हैं, "अब अति शुद्ध मैग्नीशियम के लिए हमें यूरोप का रुख करना होगा। गहरे भूमिगत मे एक 25 करोड़ वर्ष पुराना मैग्नीशियम क्लोराइड का खारा समुद्र है जिसे अब तक आधुनिक युग के प्रदूषण ने छूआ नहीं है और वहाँ नीचे यह पर्याप्त मात्रा मे है जो सैंकड़ों वर्षों तक मानव को प्राप्त हो सकता है।"

KAMD की जरूरत

KAMD लोगों को अत्यधिक दर्द और पीडा से बचाता है क्योंकि मैग्नीशियम जीवन के लिए आवश्यक है और ये एक सही सेलुलर टॉनिक है जो हमें विविध कष्टों से राहत देता है। KAMD एक उत्कृष्ट उत्पाद है जो कि अत्यधिक शीघ्रता से क्रियाशील व सुरक्षित है और इस्तेमाल करने मे भी आसान है।

KAMD यूरोप के प्राचीन अछूते समुद्रतल से प्राप्त केवल प्राकृतिक, अत्यधिक सघन, अत्यन्त शुद्ध मैग्नीशियम क्लोराइड और अन्य ट्रेस मिनरल्स से युक्त है। इस बहुमूल्य स्रोत के गहरे भूमिगत भंडार में केवल प्राकृतिक तौर पर पाए जाने वालों के इलावा कोई अन्य पदार्थ शामिल नहीं हैं। ये आसानी से त्वचा और मूलभूत ऊतकों (underlying tissues) में अवशोषित हो जाता है।

KAMD के लाभ

- शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालता है
- दर्द, तकलीफ आदि से राहत देता है
- चिंता सम्बन्धी विकारों को कम करता है
- त्वचा सम्बन्धी समस्याओं से बचाता है
- मॉसपेशियों का उचित ढंग से क्रियाशील बनाता है
- बीमारियों से लडने मे लाभकारी है
- हार्मोनल प्रणाली को संतुलित बनाता है

- अच्छी नींद लाने में सहायक है
- रक्तचाप, सिर दर्द, गठिया आदि विकारों को प्रबंधित करता है
- स्वस्थ रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखता है
- हड्डियों, जोड़ों तथा दातों में मजबूती लाता है
- न्यूरो विकारों के लिए उपयोगी है
- हृदय को स्वस्थ और रोगों से दूर रखने में सहायक है
- अधिक उर्जा तथा जीवन शक्ति और स्वास्थ्य में सुधार लाता है

मानव शरीर में KAMD कैसे काम करता है?

KAMD शरीर को क्रियाशील बनाता है जिसमें शामिल हैं—



मूत्रीय प्रणाली




अंतर्द्वियाँ




त्वचा



फेफड़े



लिम्फैटिक प्रणाली



कलेजा

मैग्नीशियम की जरूरत और महत्वता

मैग्नीशियम शरीर में 300 से अधिक जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक है। यह मांसपेशियों को सामान्य रूप में क्रियाशील बनाए रखता है, बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। मैग्नीशियम रक्तचाप (hypertension) को बढ़ाता है और उर्जा रस प्रक्रिया एवं प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक है। रक्तचाप, हृदय रोग और मधुमेह जैसी बीमारियों की रोकथाम और प्रबंधन में मैग्नीशियम की मुख्य भूमिका है।

मैग्नीशियम की कमी – एक गंभीर समस्या

किसी व्यक्ति में मैग्नीशियम की कमी होने के बावजूद शरीर मैग्नीशियम को हड्डियों और ऊतक कोशिकाओं (tissue cells) से खींच कर रक्त स्तर को सामान्य बनाए रखता है। एक व्यक्ति में मैग्नीशियम की अत्यन्त कमी हो सकती है और फिर भी उसका मैग्नीशियम रक्त स्तर सामान्य हो सकता है। लेकिन यदि ध्यान न दिया जाए तो मैग्नीशियम की कमी गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकती है।

डॉक्टर कैरोलिन डीन, एम.डी, ऐन.डी के अनुसार मैग्नीशियम की कमी निम्न लिखित का कारण बन सकता है— चिंता तथा घबराहट, अवनमन (depression), डीटॉक्सिफिकेशन, शूगर, थकान, हृदय रोग, रक्त चाप, हाईपोग्लाइसेमिआ, अनिद्रा, गुर्दा रोग, कलेजे का रोग, सिर दर्द, माँसपेशियों और हड्डियों से सम्बन्धित परिस्थितियाँ (musculoskeletal conditions), तंत्रिका समस्याएँ (nerve problems), गाइनीकोलोजिकल समस्याएँ, रेनोइड्स सिन्ड्रोम, दाँतों में सडन।

मैग्नीशियम के बारे में दुनिया भर के डॉक्टर क्या कहते हैं?

डॉ. लॉरेंस रैस्निक, एम.डी., कॉर्नेल यूनिवर्सिटी –“पर्याप्त मैग्नीशियम के बिना कोशिकाएँ सरलता पूर्वक कार्य नहीं करतीं।”

डॉ. माइल्डरेड एस. सीलिंग, एम.डी., एम.पी.एच. –‘मैग्नीशियम फैक्टर’ के लेखक, “मैग्नीशियम की कमी के कारण अधिकतम आधुनिक हृदय रोग होते हैं।”

डॉ. जाकेरी टी. ब्लूमगार्डन, एम.डी., एन्डोक्राइनोलोजिस्ट –“अध्ययनों के अनुसार द्वितीय प्रकार मधुमेह से प्रभावित 90% व्यक्तियों में फ्री इन्ट्रासेलुलर लाल रक्त कोशिकाओं का स्तर कम है।”

डॉ. जैरी आइकावा, द यूनिवर्सिटी आफ कोलोरैडो –“मैग्नीशियम मनुष्य और अन्य सभी जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण खनिज है।”

डॉ. जूलियन वाइटेकर, एम.डी, अमेरिका के सबसे विख्यात संपूर्णात्मक चिकित्सा के डॉक्टरों में से एक और सर्वोत्तम विक्रेता, ‘Shed 10 years in 10 weeks’ के लेखक – “अनुसंधान ने मैग्नीशियम के कम स्तरों और हृदय रोग के आलोचनात्मक संबंध को प्रबल रूप में दर्शाया है। कितने सारे रक्तचाप रोगियों को मिनरल के अधिक अन्तर्ग्रहण से फायदा हुआ है।”

डॉ. कैथेरिन टकर, हड्डियों के अनुसंधानकर्ता, टप्टस यूनिवर्सिटी से पी.एच.डी –“यदि किसी में मैग्नीशियम की कमी है तो उसकी हड्डियाँ ज्यादा नाजुक होंगी।”

डॉ. शैरी रोगर्स, एम.डी, ‘Depression: Cured At Last’ के लेखक –“मैंने 31 वर्षों में ये देखा है कि मैग्नीशियम ने किसी भी अन्य मिनरल से अधिक लाईलाज और रहस्यमय लक्षणों को सुलझाया है।”